



प्रेस नोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा

थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोर किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं वांछित/ इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शमशाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 30.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि एक चोर, चोरी की मोटर साइकिल से राजाखेड़ा से आगरा की तरफ आ रहा है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये गये स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से चैकिंग प्रारम्भ कर दी। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटर साइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया और मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को चारों ओर से घेर-घोट कर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल करीब 01 महीने पहले चौहान ढाबा थाना क्षेत्र फतेहाबाद से चोरी की थी। उक्त सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पर मु0अ0सं0 181/21 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अर्जुन पुत्र सुजान सिंह निवासी ग्राम गोपालपुरा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुरा राजस्थान।

➤ आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 181/21 धारा 379 भा0द0वि0 थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।





02. मु0अ0सं0 165/21 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 414 भा0द0वि0 थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष श्री राजकुमार गिरि थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

02. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

03. उ0नि0/यू0टी श्री विकास कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

04. कां0 प्रमोद कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

05. कां0 विकास यादव थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।



मीडिया सेल जनपद आगरा ।

